



भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA  
अंतरिक्ष विभाग/DEPARTMENT OF SPACE  
भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन//INDIAN SPACE RESEARCH ORGANISATION  
विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र/VIKRAM SARABHAI SPACE CENTRE  
तिरुवनंतपुरम/THIRUVANANTHAPURAM-22



सत्यमेव जयते

विज्ञापन सं. 6.3/सीएचएसएस/वीएसएससी/2026/01 दिनांक 17.03.2026  
ADVERTISEMENT NO.6.3/CHSS/VSSC/2026/01 DATED 17.03.2026

संविदा के आधार पर निम्नलिखित पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है:  
INVITES APPLICATIONS TO FOLLOWING POSITION ON CONTRACT BASIS:

क्रम सं. Sl. No.	पद Post	अनिवार्य योग्यताएं Essential qualifications	अपेक्षित अनुभव Experience required	ड्यूटी की प्रकृति Nature of Duty	ड्यूटी का स्थान और समय Location & Timings of duty	संविदा की अवधि Duration of contract	पारिश्रमिक Remuneration	चयन की विधा Mode of selection
I	तिरुवनंतपुरम के पारशाला में प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी (एलोपैथी) AUTHORISED MEDICAL OFFICER (ALLOPATHY) AT PARASSALA IN THIRUVANANTHAPURAM	चिकित्सा परिषद् में स्थाई पंजीकरण के साथ एमबीबीएस MBBS with permanent Medical Council Registration	चिकित्सा परिषद् में स्थाई पंजीकरण के बाद कम-से-कम दो वर्ष Minimum two years after permanent registration with Medical Council	सीएचएसएस के हितभागियों के लिए परामर्श तथा उपचार Consultation and treatment of CHSS beneficiaries.	पारशाला में अच्छी सुविधाओं के साथ एक परामर्श कक्ष होना चाहिए* Should have a consultation room with good facilities at Parassala*	प्रारंभ में 6 महीने के लिए। आपसी सहमति से बढ़ाया जा सकता है Initially for 6 months. Can be extended with mutual consent	सौपी गई फाइलों की संख्या के आधार पर प्रतिमाह रु.12000/-से रु.54000/- तक के अंदर Based on the number of files assigned, in the range of Rs.12000/- to Rs.54000/- per month.	वैयक्तिक साक्षात्कार + परामर्श कक्ष का निरीक्षण Personal Interview + Inspection of consultation room
II	तिरुवनंतपुरम के नेमम में प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी (होम्योपैथी) AUTHORIZED MEDICAL OFFICER (HOMEOPATHY) AT NEMOM IN THIRUVANANTHAPURAM	भारतीय चिकित्सा पद्धति परिषद् में पंजीकरण के साथ बीएचएमएस BHMS with Registration in The Council of Indian Systems of Medicine	चिकित्सा परिषद् में स्थाई पंजीकरण के बाद कम-से-कम दो वर्ष Minimum two years after graduation and Registration with the Medical Council	सीएचएसएस के हितभागियों के लिए परामर्श तथा उपचार Consultation and treatment for CHSS beneficiaries	नेमम में अच्छी सुविधाओं के साथ एक परामर्श कक्ष होना चाहिए* Should have own consultation room with good facilities in Nemom*	प्रारंभ में 6 महीने के लिए। आपसी सहमति से बढ़ाया जा सकता है Initially for 6 months. Can be extended with mutual consent	नियत राशि रु. 12,500/- प्रति माह Fixed amount of ₹12,500/-	वैयक्तिक साक्षात्कार + परामर्श कक्ष का निरीक्षण Personal Interview + Inspection of consultation room

क्रम सं. SI. No.	पद Post	अनिवार्य योग्यताएं Essential qualifications	अपेक्षित अनुभव Experience required	ड्यूटी की प्रकृति Nature of Duty	ड्यूटी का स्थान और समय Location & Timings of duty	संविदा की अवधि Duration of contract	पारिश्रमिक Remuneration	चयन की विधा Mode of selection
III	त्वचा विशेषज्ञ DERMATOLOGIST	चिकित्सा परिषद् में स्थाई पंजीकरण के साथ एमबीबीएस MBBS with permanent Medical Council Registration तथा/AND एमडी/डीएनबी त्वचा विज्ञान या चिकित्सा परिषद् में अतिरिक्त योग्यता के पंजीकरण के साथ त्वचा विज्ञान में पीजी डिप्लोमा MD/DNB Dermatology OR PG Diploma in Dermatology with registration of additional qualification in Medical Council	त्वचा विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि/डिप्लोमा की पूर्ति के बाद कम-से-कम दो वर्ष Minimum two years after completion of PG Degree/ Diploma in Dermatology.	सीएचएसएस केहितभागियों की त्वचा संबंधी बीमारियों के लिए परामर्श एवं उपचार Consultation and treatment for Dermatologic ailments to CHSS beneficiaries	अच्छी सुविधाओं के साथ एक परामर्श कक्ष होना चाहिए (तिरुवनंतपुरम शहर में)* Should have a consultation room with good facilities (in Thiruvananthapuram city)*	प्रारंभ में 6 महीने के लिए। आपसी सहमति से बढ़ाया जा सकता है। Initially for 6 months. Can be extended with mutual consent	₹./Rs. 400/- प्रति परामर्श/ per consultation	वैयक्तिक साक्षात्कार + परामर्श कक्ष का निरीक्षण Personal Interview + Inspection of consultation room

\*परामर्श कक्ष व्यक्तिगत साक्षात्कार की तिथि को या उसके तुरंत बाद निरीक्षण हेतु तैयार रहना चाहिए।

\*The consultation room should be ready for inspection on or immediately after the date of personal interview.

वांछनीय: चयन होने की स्थिति में, आवेदक क्लिनिक आने वाले लाभार्थियों के लिए स्थल पर विशेष पार्किंग सुविधा प्रदान कर सकते हैं।

Desirable: In case of selection, Applicants may provide exclusive parking space at the location for beneficiaries visiting the clinic.

नोट:/Note: उपर्युक्त सभी पदों के लिए 70 साल से कम आयु के चिकित्सकों को वरीयता दी जाएगी।/Preference for those below 70 years for all the posts above.

इच्छुक अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे हमारे वेबसाइट [www.vssc.gov.in](http://www.vssc.gov.in) से आवेदन प्रपत्र डाउनलोड करें, उसे भरें और ऊपर उल्लिखित उपाधि/पंजीकरण एवं अनुभव संबंधी प्रमाणपत्रों की स्कैन की गई प्रति के साथ आवेदन को दिनांक 31.03.2026 को या उससे पहले [chsshhelp@vssc.gov.in](mailto:chsshhelp@vssc.gov.in) पर ई-मेल के माध्यम से (विषय: 'संविदा पर प्रा.चि.अ(एलोपैथी)/ प्रा.चि.अ(होम्योपैथी)/ त्वचा विशेषज्ञ के पद हेतु आवेदन') अग्रिम प्रति के रूप में प्रस्तुत करें। केवल लघुसूचीबद्ध अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में भाग लेना है। लघुसूचीबद्ध अभ्यर्थी साक्षात्कार संबंधी ब्यौरों की सूचना ई-मेल/फोन से प्राप्त करेंगे।

Interested candidates are advised to download the application form from our website [www.vssc.gov.in](http://www.vssc.gov.in), fill up and submit the same through e-mail: [chsshhelp@vssc.gov.in](mailto:chsshhelp@vssc.gov.in) (with Subject: 'Application to the position of AMO (Allopathy)/ AMO (Homeopathy)/ Dermatologist on contract') **on or before 31.03.2026** along with scanned copy of the Educational qualification/ Registration certificates and experience mentioned above as advance copy. Only shortlisted candidates need to attend the interview. Shortlisted candidates will receive intimation about the details of the interview through e-mail/phone.

### सामान्य शर्तें/अनुदेश/General Conditions/Instructions:

1. केवल भारतीय नागरिक आवेदन दें।/Only Indian Nationals need apply.
  2. अभ्यर्थियों को जीवनवृत्त फॉर्म (निर्धारित प्रारूप डाउनलोड करें और विधिवत् भरें), शैक्षणिक योग्यता, आयु, अनुभव, पंजीकरण आदि साबित करनेवाले मूल प्रमाणपत्रों के साथ, अन्य कोई संगत सूचना सहित, स्वयं साक्षात्कार में उपस्थित रहना चाहिए।  
Candidates should appear for the interview in person along with Bio-data form (download and duly fill-in the prescribed format), original certificates proving educational qualification, age, experience, registration etc., along with any other relevant information.
  3. अभ्यर्थियों को आवेदन के साथ संगत प्रमाणपत्रों/शंसापत्रों की स्वयं-अनुप्रमाणित सही प्रतिलिपियां संलग्न करनी चाहिए तथा साक्षात्कार के दिन उन्हें प्रस्तुत करना चाहिए।  
Candidates should enclose self-attested true copies of the relevant certificates/testimonials along with the application and submit the same on the date of interview.
  4. विज्ञापित योग्यता, कौशल, अनुभव आदि रखनेवाले अभ्यर्थियों को ही साक्षात्कार में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी।  
Candidates possessing advertised qualification, skill, experience etc., alone will be allowed to attend the Interview.
  5. यदि अपेक्षित हो तो, अपने ठहरने की व्यवस्था अपने खर्च पर करने की सलाह अभ्यर्थियों को दी जाती है।  
Candidates are advised to make their own arrangements for their stay, at their cost, if required.
  6. चयनित होना वीएसएससी या इसरो/अं.वि. के किसी अन्य केंद्र में नियमित नौकरी हेतु दावा करने का कोई अधिकार नहीं देता।  
Selection does not warrant any claim for regular employment in VSSC or any other Centres of ISRO/DOS.
  7. यदि केंद्र ऐसा निर्णय करता है तो, कार्यकाल की पूर्ति होने से पहले किसी भी समय यह नियुक्ति समाप्त करने का अधिकार वह रखता है।  
The Centre reserves the right to terminate the appointment at any time before completion of the tenure if it so decides.
  8. यदि केंद्र ऐसा निर्णय करता है तो, इन पदों को न भरने का अधिकार वह रखता है।  
The Centre reserves the right not to fill up the positions, if it so decides.
  9. किसी भी प्रकार के अंतरिम पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।  
No interim correspondence will be entertained.
  10. किसी भी रूप में पक्षप्रचार अयोग्यता माना जाएगा।  
Canvassing in any form will be a disqualification.
  11. सरकार एक ऐसे कार्यबल का प्रयास करती है जो लिंग संतुलन की अभिव्यक्ति करता है तथा महिला अभ्यर्थियों को आवेदन देने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है।  
Government strives to have a work force which reflects gender balance and women candidates are encouraged to apply.
-